



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

No. 7]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

सं. 53/(2015-2020)

विषय रू प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) में पैरा 2.14(क) को शामिल करना।

फा. सं. 01/93/180/20/एम-13/पीसी-2(बी) खंड II—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.14(क) को निम्नानुसार शामिल करते हैं :

2.14(क) आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्तन के साथ संशोधन/परिवर्तन:

जब कोई आईईसी अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन का इच्छुक हो तथा इसके संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्तन हो रहा हो, तो इस संबंध में नए क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके कार्यक्षेत्र में आवेदक अपना कार्यालय स्थापित कर रहा है, को अनुरोध करना होगा। इस अनुरोध की एक प्रति आवेदन के ब्यौरे के साथ पुराने क्षेत्रीय प्राधिकरण, जहाँ से मूल आईईसी जारी किया गया था, को प्रस्तुत करनी होगी।

इस अनुरोध के आधार पर पुराना क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक है) आईईसी फाइल नए क्षेत्रीय प्राधिकारी (नया अभिरक्षक) को स्थानांतरित करेगा और नया क्षेत्रीय प्राधिकारी स्थानांतरित फाइल और आवेदक द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेजों के आधार पर समुचित संशोधन करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक को उसके नए पते पर आवश्यक कार्य करने हेतु तथा विदेश व्यापार नीति के अनुसार पात्र लाभों के लिए भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान करेगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के प्राधिकरण में परिवर्तन के साथ संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE****New Delhi, the 5th January, 2016****No. 53 / (2015-2020)****Subject: -Introduction of Para 2.14(A) in the Handbook of Procedure (2015-20).**

F. No. 01/93/180/20/AM-13/PC-2(B) Vol.II.— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby introduces Para 2.14(A) in the Handbook of Procedure which reads as under:

2.14 (A) Modification/Change in Branch Office/Head Office/Registered Office Address in IEC involving a shift in jurisdictional RA:

When an IEC holder seeks modification/change of Branch Office/Head Office/Registered Office address in its IEC and which involves a shift in its jurisdictional RA, a request to that effect will have to be made to the new RA to whose jurisdiction the applicant is shifting its Office. A copy of this request with application details is to be submitted to the old RA from where the original IEC was issued.

On the basis of this request, the old RA (the custodian of the IEC file till now) will transfer the IEC file to the new RA (the new custodian) which shall make appropriate amendment based on the transferred file and fresh documents submitted to it by the applicant. The new RA shall allow the person in its new address to carry out necessary functions and also apply for eligible benefits as per FTP.

2. Effect of this Public Notice: Procedure for modification/change in Branch Office/Head Office/Registered Office Address in IEC involving a change in jurisdictional RA is laid down.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade